



# लक्षद्वीप का राजपत्र The Lakshadweep Gazette

PUBLISHED BY AUTHORITY  
EXTRAORDINARY

---

VOL. LVII. No. 17 THURSDAY, 26th AUGUST, 2021 / 4th BHADRA, 1943 (SAKA)

---

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi - 110001

No. 76/LKD-HP/2019

Dated : 24<sup>th</sup> August, 2021.  
02 Bhadra, 1943 (Saka)

### ORDER

**WHEREAS**, the General Election to the Lok Sabha for **01-Lakshadweep (ST)** Parliamentary Constituency of Union Territory of Lakshadweep, 2019 was announced by the Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10<sup>th</sup> March, 2019; and

**WHEREAS**, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of account of election expenses within 30 days with the concerned District Election Officer, from the date of election of the returned candidate; and

**WHEREAS**, the result of the election for **01-Lakshadweep (ST)** Parliamentary Constituency was declared by the Returning Officer on 23<sup>rd</sup> May, 2019 and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was 22<sup>nd</sup> June, 2019; and

**WHEREAS**, as per the report dated **04-07-2019** submitted by the District Election Officer, **Lakshadweep, Ali Akber K.** contesting candidate from **01-Lakshadweep (ST)** Parliamentary Constituency of Union Territory of Lakshadweep General Election to Lok Sabha, 2019, has failed to lodge account of election expenses, as required under law; and

**WHEREAS**, on the basis of the said report of the District Election Officer, a Show-Cause notice No. 76/LKD-HP/2019, dated 31<sup>st</sup> July, 2020 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Ali Akber K.** for not lodging of account of Election Expenses; and

**WHEREAS**, through the above said Show Cause Notice and under sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Ali Akber K.** was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reason for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election officer, **Lakshadweep** within 20 days from the date of receipt of the notice; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **Lakshadweep**, has reported that the said notice was served to **Ali Akber K.** on **10-08-2020**; and

**WHEREAS**, the District Election Officer, **Lakshadweep** in his supplementary report dated **31-07-2021**, reported that **Ali Akber K.** has not submitted account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Ali Akber K.** has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

**WHEREAS**, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that :-

*“ If the Election Commission is satisfied that a person.*

*(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and*

*(b) has no Good reason or justification for the failure,*

*the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order.*

**WHEREAS**, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Ali Akber K.** has failed to lodge account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Ali Akber K. Konjanoda, Kiltan, Lakshadweep** and a contesting candidate from **01-Lakshadweep (ST)** Parliamentary Constituency of Union Territory of Lakshadweep in the General Election to the Lok Sabha, 2019 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State Union territory for a period of three years from the date of this order.

Sd/-  
( AVINASH KUMAR)  
Principal Secretary  
Election Commission of India.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 76/लक्षद्वीप.-लो.स./2019

दिनांक: 24 अगस्त, 2021

2 भद्रा, 1943 (शक)

### आदेश

यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2019 के प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/23/2019 के तहत लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के 01-लक्षद्वीप (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 की घोषणा की गई थी; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय के लेखों की सही प्रति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होती है; और

यतः, 01-लक्षद्वीप (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन के परिणाम रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे और इस प्रकार निर्वाचन व्यय के लेखों दाखिल करने की अंतिम तारीख 23 जून, 2019 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप द्वारा प्रस्तुत दिनांक 04.07.2019 की रिपोर्ट के अनुसार, लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, 2019 के 01-लक्षद्वीप (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अली अकबर, के विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (5) के अंतर्गत अली अकबर, के को निर्वाचन व्यय के लेखों प्रस्तुत नहीं करने के लिए दिनांक 31 जुलाई, 2020 को कारण बताओ नोटिस सं. 76/एलकेडी-एचपी/2019 जारी किया गया था; और

यतः, उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अंतर्गत, अली अकबर, के को लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए आयोग को अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप ने बताया कि अली अकबर, के को उक्त नोटिस दिनांक 10.08.2020 को तामील किया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप ने दिनांक 31.07.2021 की अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया कि अली अकबर, के ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस मिलने के उपरांत अली अकबर, के ने विधि के अंतर्गत यथा-विहित लेखों प्रस्तुत करने में अपनी विफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह विहित है कि:

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—


(क) इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अधीन अपेक्षित समय के भीतर और रीति में निर्वाचन वृथ्वा लेखा दाखिल करने में विफल रहा है; और

(ख) उसके पास इस विफलता का कोई उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है

तो निर्वाचन आयोग सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित करके उसे निरर्थ घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्थ रहेगा”;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है की अली अकबर, के अपने निर्वाचन वृथ्वा के लेखे दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास ऐसा करने में विफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के 01-लक्षद्वीप (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, अली अकबर, के कोनजानोडा, किल्तन, लक्षद्वीप इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्थ होंगे।



(अविनाश कुमार)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री अली अकबर, के

कोनजानोडा किल्तन,

लक्षद्वीप।

GOVERNMENT OF INDIA  
LAKSHADWEEP ADMINISTRATION  
(DEPARTMENT OF FOOD, CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS)

Kavaratti Island,  
Dated : 13-08-2021.

**NOTIFICATION**

**F.No. 17/1/2016-FCS /538 :-** In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 of the National Food Security Act, 2013, the Administrator, Union Territory of Lakshadweep is pleased to appoint the Collector, Union Territory of Lakshadweep, as District Grievance Redressal Officer (DGRO), Lakshadweep under the National Food Security Act, 2013.

This is issued with the approval of the Hon'ble Administrator, Union Territory of Lakshadweep vide Diary No. 205, dated 12-08-2021.

Sd/-  
(O.P. MISHRA)  
Special Secretary, Food and Supplies.

GOVERNMENT OF INDIA  
LAKSHADWEEP ADMINISTRATION  
(SECRETARIAT - SERVICE SECTION)

Kavaratti Island,  
Dated : 05-08-2021.

**NOTIFICATION**

**F.No. 12/01/2021-Services(3)/1456 :-** In exercise of the powers conferred by Section 20 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) read with Notification No. S.O. 183 (E) dated 20<sup>th</sup> March, 1974 of the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi, the Administrator Union Territory of Lakshadweep is pleased to appoint **Shri. Vishal Sah IAS (AGMUT-2019), Deputy Collector cum CEO Central** as Executive Magistrate with jurisdiction in the (Kavaratti, Agatti and Bangaram Islands) and islets around the Kavaratti, Agatti and Bangaram Island. He will exercise all or any of the powers exercisable by an Executive Magistrate under the said code.

The Administrator is also pleased to specially empower him to exercise the powers specified under Section 107, 108, 109, 110, 133, 143, 144, 174 & 176 of the said code.

This Notification shall have effect from the date on which the officer takes over charge as Deputy Collector cum CEO Central (Kavaratti, Agatti and Bangaram Islands) and remains till such period the officer holds the charge of Deputy Collector cum CEO Central (Kavaratti, Agatti and Bangaram Islands).

This is issued with the approval of Competent Authority vide Diary No. 2125, dated 05-08-2021.

Sd/-  
( Dr. SHASHIPAL DABAS , DANICS)  
Director (Services).